



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 22.10.2021

1-थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 05 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का व शराब तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार बरामद।

दिनांक 21/10/2021 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 01 शराब तस्कर विकास पुत्र राजवीर निवासी जमाल कॉलोनी, बराही मन्दिर के पास, कस्बा व थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के कस्बा सूरजपुर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 05 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का तथा शराब तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट कार सफेद रंग रजि0 नं0 डीएल 8 सीएजे 0150 बरामद की गयी है।

अभियुक्त का विवरण:

विकास पुत्र राजवीर निवासी जमाल कॉलोनी, बराही मन्दिर के पास, कस्बा व थाना सूरजपुर जिला गौतमबुद्धनगर।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 857/2021 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

1.05 पेटी अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का

2.स्विफ्ट कार सफेद रंग रजि0 नं0 डीएल 8 सीएजे 0150



2-थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा 02 लूटेरे अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 लूटा गया मोबाइल फोन व लूट के 300 रूपये नगद बरामद।

दिनांक 22/10/2021 को थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा 02 लूटेरे अभियुक्त 1. चाँद मोहम्मद पुत्र खालिद अंसारी निवासी श्रम विहार, झुग्गी, शाहिन बाग, दिल्ली, 2. अफताव हुसैन पुत्र मौहम्मद मुमताज निवासी श्रम विहार झुग्गी, शाहिन बाग दिल्ली को थाना क्षेत्र के महामाया फ्लार्ड ओवर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूटा गया मोबाइल फोन लावा कम्पनी का कीपैड व 300 रूपये नगद बरामद किये गये है।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 21.10.2021 को गन्दा नाला, जीआईपी के पास उक्त मोबाइल फोन व रूपये लूटे गये थे।

अभियुक्तों का विवरण:

1. चाँद मोहम्मद पुत्र खालिद अंसारी निवासी श्रम विहार, झुग्गी, शाहिन बाग, दिल्ली।
2. अफताव हुसैन पुत्र मौहम्मद मुमताज निवासी श्रम विहार झुग्गी, शाहिन बाग दिल्ली।

पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 833/21 धारा 392/411 भादवि थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

लूटा गया मोबाइल फोन लावा कम्पनी का कीपैड व 300 रूपये नगद।

#धोखाधड़ी कर खाते से पैसे निकालने की घटना का सफल अनावरण करते हुए सम्पूर्ण धनराशि वापस कराने वाली आईटी सैल, ग्रेटर नोएडा पुलिस टीम को इंडलसैंड बैंक के रीजनल हैड, श्री श्रीकान्त (नोएडा), श्री रजत माथुर होम मार्केट हैड (नोएडा) व श्री आशीष महाजन उपाध्यक्ष (कानून) एवं उनकी टीम द्वारा किया गया सम्मानित।

थाना बीटा-2 पर पंजीकृत मु0अ0सं0 679/20 धारा 420/467/468/471/ 120बी/406 भादवि व 66 आई टी एक्ट जिसमें अभियुक्तों द्वारा ऑनलाइन खाताधारक/पीडित के मोबाइल नंबर की दूसरी सिम निकलवाकर फर्जी दस्तावेज से डेबिट कार्ड जारी कराकर ऑनलाइन बैंकिंग द्वारा खाते से 67,30,925/- रु0 (67 लाख तीस हजार नौ सौ पच्चीस रु0) फ्राड कर निकाल लिये गये थे।

उक्त अभियोग की विवेचना अपर पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा विशाल पाण्डे के मार्गदर्शन में आईटी सैल, ग्रेटर नोएडा द्वारा गहनता से विवेचना की गई जिसमें विवेचना के दौरान बैंक अधिकारी विक्रम कटारिया पुत्र स्व0 श्री सुनील कुमार कटारिया निवासी बी-1212, मिगसन ग्रीन मेनसन सेक्टर-जीटा-1 थाना सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा व जितेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्यामलाल निवासी सुषमा सदन गुप्ता कॉलोनी, राजा गार्डन, जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार एवं उनके सहयोगी 1. सतीश राणा पुत्र रतन सिंह राणा निवासी अग्रवाल मण्डी, टटीरी, थाना कोतवाली बागपत, जिला बागपत वर्तमान निवासी एमजी-10 सी एल्लिको माइस्टिक ग्रीन अपार्टमेन्ट, ओमीक्रोन प्रथम, थाना दादरी गौतमबुद्धनगर 2. अनुज पुत्र सतेन्द्र सिंह निवासी सैदपुर थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर, वर्तमान पता डी-93 ज्यू प्रथम, नियर घोड़ी बछेडा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर 3. प्रदीप राना पुत्र रतन सिंह निवासी अग्रवाल मण्डी, टटीरी, थाना कोतवाली बागपत, जिला बागपत वर्तमान पता दिल्ली 4. रतन सिंह राना निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी, थाना कोतवाली बागपत, जिला बागपत के नामों की संलिप्तता पाते हुए तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया एवं सम्पूर्ण धनराशि 67,30,925/- रु0 (67 लाख तीस हजार नौ सौ पच्चीस रु0) खाताधारक/पीडित को वापस कराये गये।

उपरोक्त असाधारण कार्य हेतु निरीक्षक विनय शर्मा व उनकी टीम को उचाधिकारीगण द्वारा 50,000/- रूपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करते हुए सराहना की गयी।

इसी क्रम में दिनांक 22.10.2021 को इंडलसैंड बैंक के रीजनल हैड, श्री श्रीकान्त (नोएडा), श्री रजत माथुर होम मार्केट हैड (नोएडा) व श्री आशीष महाजन उपाध्यक्ष (कानून) एवं उनकी टीम द्वारा श्री विशाल पाण्डे अपर पुलिस उपायुक्त ग्रेटर नोएडा को ग्रेटर नोएडा जोन में अपराध नियंत्रण एवं कुशल मार्गदर्शन में प्रशंसनीय व उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मानित किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त के सफल अनावरण हेतु निरीक्षक विनय शर्मा आईटी सैल ग्रेटर नोएडा, है0का0 राकेश साइबर सैल नोएडा, है0का0 विनय कुमार सर्विलांस सैल ग्रेटर नोएडा, है0का0 प्रो0 सहदेव त्यागी आईटी सैल ग्रेटर नोएडा, का0 2481 पवनेश कुमार, म0का0 2425 नीतू रानी आईटी सैल ग्रेटर नोएडा को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया एवं भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

